



1-अवैध तमंचा व कारतूस सहित अभियुक्त गिरफ्तार, थाना छजलैट:-

अवगत कराना है कि आज दिनांक 31-10-2022 को उ0नि0 श्री लाजपत सिंह थाना छजलैट द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त रुखसाद पुत्र मुजफ्फर निवासी ग्राम चेताराम पुर थाना छजलैट, मुरादाबाद को एक अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना छजलैट पर मु0अ0सं0 238/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

2-दहेज की मांग कर हत्या करने का आरोपी गिरफ्तार, थाना पाकबडा:-

अवगत कराना है कि दिनांक 17-10-2022 को वादी निवासी थाना मूढापाण्डे क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्त द्वारा वादी की बहन को दहेज की मांग कर प्रताडित करने व मांग पूरी न होने पर हत्या करने के सम्बन्ध में थाना पाकबडा पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना पाकबडा पर मु0अ0सं0 309/2022 धारा 498A/304B भा0द0वि0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 31-10-2022 को उ0नि0 श्री सोमपाल सिंह थाना पाकबडा द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त विक्रम पुत्र प्रकाश निवासी मौढा थाना पाकबडा, मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

3-फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का आरोपी गिरफ्तार, थाना कोतवाली नगर:-

अवगत कराना है कि दिनांक 29-07-2022 को वादी डा0 संजीव वेलवाल रजिस्ट्रार जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र नगर निगम मुरादाबाद ने अज्ञात व्यक्ति द्वारा धोखाधडी कर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 106/2022 धारा 420/467/468/471 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 31-10-2022 को उ0नि0 श्री सतेंद्र शर्मा थाना कोतवाली नगर द्वारा मय हमराही पुलिस बल के प्रकाश में आये अभियुक्त सोनू उर्फ सौरभ पुत्र मुन्ना लाल निवासी ग्राम सैफपुर थाना कटघर, मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

4- माननीय प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोपी गिरफ्तार, थाना ठाकुरद्वारा:-

अवगत कराना है कि दिनांक 30-10-2022 को वादी श्री अखिलेश कुमार पुत्र रमेश सिंह नि0 ग्राम ख्वाजपुर धन्तला थाना ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद ने अभियुक्त द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल करने के सम्बन्ध में थाना ठाकुरद्वारा पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना ठाकुरद्वारा पर मु0अ0सं0 491/2022 धारा 505(2) भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 31-10-2022 को उ0नि0 श्री विनय मित्तल थाना ठाकुरद्वारा द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त असलम पुत्र हफीज निवासी सुरजननगर थाना ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

5- सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुये 04 आरोपी गिरफ्तार,थाना मैनाठेर:-

अवगत कराना है कि दिनांक 30.10.2022 को व0उ0नि0 श्री पवन कुमार थाना मैनाठेर द्वारा मय हमराही पुलिसबल के अभियुक्तगण 1-सलीम अंसारी पुत्र इस्माईल निवासी ग्राम मैनाठेर निकट जामा मस्जिद थाना मैनाठेर, मुरादाबाद 2-भीकम पासी पुत्र करन पासी 3-धर्मेन्द्र सिंह पुत्र मुन्ना सिंह 4-कुमरपाल कश्यप पुत्र राजेन्द्र कश्यप निवासीगण ग्राम नरौदा थाना मैनाठेर, मुरादाबाद को हार-जीत की बाजी लगाकर सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना मैनाठेर पर मु0अ0सं0 319/2022 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया।